




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY



भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 1981/अग्रहायण 10, 1903

No. 24] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 1981/AGRAHAYANA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1981

का० नि० आ० 29-ई०--केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 10 ई० तारीख 2 मार्च, 1981 द्वारा यह घोषित किया था कि मेरठ छावनी के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड, मेरठ के संविधान को परिवर्तित करना वांछनीय है।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि मेरठ छावनी के प्रशासन के लिए उक्त बोर्ड के कार्यालय का बढ़ाना वांछनीय है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त बोर्ड के कार्यकाल को 2 दिसम्बर, 1982 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

संख्या 29/30/सी/एल० एंड सी०/77/3420-सी/डी (क्यू एंड सी)]
भास्कर घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st December, 1981

S.R.O. 29-E.—Whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No S.R.O. 10-E, dated the 2nd March, 1981, had declared that for the administration of the Meerut Cantonment, it was desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Meerut;

And whereas the Central Government is satisfied that for the administration of the Cantonment Meerut, it is desirable to extend the term of office of the said Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the term of office of the said Board upto and inclusive of the 2nd December, 1982.

[File No. 29/30/C/L&C/77/3420-C/D (Q & C)]

BHASKAR GHOSE, Joint Secy.

का० नि० आ० 30-ई०.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 29-ई० दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 के भाग-2, खंड-4 में प्रकाशित हुआ था, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बॉर्ड, मरुठ के सदस्य के रूप में 3 दिसम्बर, 1981 से मनोनीत किया गया है।

1. [कर्नल वी० के० तिवारी धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत नामांकित
2. श्री सुन्दर लाल जैन सुपुत्र श्री धारा 14 की उपधारा (2) के खंड स्वरूप चंद जैन (ग) के अन्तर्गत नामांकित

[फाइल संख्या 29/30/सी/एल० एंड सी०/77/3420-सी/डी (न्यू एंड सी)]

भास्कर घोष, संयुक्त सचिव

S.R.O. 30-E.—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 29-E dated the 1st December, 1981 published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II Section 4, dated the 1st December, 1981, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station, to be the members of the Cantonment Board. Meerut with effect from 3rd December, 1981 :—

1. Col. V. K. Tiwari Nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.
2. Shri Sunder Lal Jain Nominated under clause (c) son of Shri Swarup of sub-section (2) of section 14. Chand Jain.

[File No. 29/30/C/L&C/77/3420-C/D(Q&C)]

BHASKAR GHOSE, Joint Secy.